



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 128) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-3-3001/05 का0 2254)  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

25 मार्च 2009

श्री बासुदेव दास, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-267/04, 130/08 तत्कालीन अपर जिला दंडाधिकारी, सहाय्य, पटना को बाढ़ राहत कार्यों में बरती गई गंभीर अनियमितता में उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-008/05 में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त होने के कारण दिनांक 28.05.05 को गिरफ्तार कर कारा में संसीमित किया गया। असेनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49(ए) 2(ए) एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-99 के तहत विभागीय संकल्प सं0-6080 दिनांक 08.07.05 द्वारा श्री दास को गिरफ्तार किये जाने की तिथि 28.05.05 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

श्री दास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका सी0डब्लू0जे0सी0-15387/08 दायर कर निलंबन को चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.01.09 को पारित आदेश के आलोक में मामले की समीक्षा विभागीय स्तर से किये जाने के पश्चात सरकार के आदेशानुसार श्री दास को (जेल की अवधि दिनांक 28.05.05 से 16.10.06 तक को छोड़कर) दिनांक 17.10.06 से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री बासुदेव दास, बि0प्र0से0 मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना एवं अन्य संबंधितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 128-571+10-डी0टी0पी0।